

@Shahjahanpurpol*

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 13.06.2021

थाना जैतीपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड, भारी मात्रा में निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध असलहा व असलहा बनाने के उपकरणों सहित शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्री एस आनन्द पुलिस, अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्र का कारोबार करने वाले क्रियाशील एवं चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन एवं श्री परमानन्द पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष जैतीपुर श्री प्रदीप सहरावत के कुशल नेतृत्व में थाना जैतीपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

इसी क्रम में दिनांक 12.06.2021 को थाना जैतीपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर **ग्राम नौगवा गोविन्दपुर जाने वाले रास्ते से पर बायीं तरफ यूकेलिप्टिस के बाग में से अभियुक्त रूम सिंह उर्फ भगत पुत्र सेवाराम निवासी ग्राम नगला उर्फ बंधरा थाना जैतीपुर जिला शाहजहाँपुर** को अवैध असलहा बनाते हुए गिरफ्तार कर अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड किया। मौके से भारी मात्रा में निर्मित व अर्द्धनिर्मित अवैध असलहा व असलहा बनाने के उपकरण बरामद किये गये। इस सम्बन्ध में थाना जैतीपुर पर मु0अ0स0 223/2021 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता:-

1-रूम सिंह उर्फ भगत पुत्र सेवाराम निवासी ग्राम नगला उर्फ बंधरा थाना जैतीपुर जिला शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. दो अदद देशी रायफल 315 बोर
2. दो अदद देशी तमंचे 315 बोर
3. एक अदद देशी रायफल अर्द्धनिर्मित 315 बोर
4. दो अदद देशी तमंचे अर्द्धनिर्मित 12 बोर
5. एक अदद खोखा कारतूस 12 बौर
6. एक अदद खोखा कारतूस 315 बौर
7. एक अदद अर्द्धनिर्मित तमंचा बाडी बट बिना नाल व पुरानी नाल लोहा व लकड़ी की चाप आदि
- 8-भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण

कार्यक्षेत्र:-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो पूर्व में भी अवैध शस्त्र निर्माण करने के अपराध में थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर व थाना हजरतगंज जनपद बदायूं से जेल जा चुका है। यह अवैध शस्त्र बनाकर आस पास के क्षेत्रों में सप्लाई करता है तथा इसी से अवैध धन अर्जित करता है। इसका यही पेशा है। आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सहरावत थाना जैतीपुर शाह0पुर
2. उ0नि0 श्री विपिन कुमार
3. उ0नि0 रूखसार खाँ
4. का0 2300 अंकित नेहरा
5. का0 2157 विशाल अष्टवाल
6. का0 1813 ओमप्रकाश